

## Annexure D

### BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 15/18

Dated 26-05-25


It is certified that the existing building S.S. PARAMOUNT SCHOOL at Majhauri Ballia is having block(s)/Floor(s) as per details below.

Detail of Block(s) in School	Block(1)	Block(2)	Block(3)	Block(4)	Block(5)	Block(6)
No. of Floor (s) in the Block	Ground+1					

The building is owned/occupied by S.S. PARAMOUNT SCHOOL have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of C.D., P.W.D., Ballia on 29-06-2015, on the basis of certificate given by Mr. Nirmal Kumar Pandey (B.E. Civil Engineer) dated 23-05-2025 in the presence of Abhishek Kumar Tiwari, Majhauri, Ballia and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 26-05-2025 for a period of 10 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. In the case of severe natural calamity, the aforesaid certificate will not be applicable.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 26-05-2025 at Assistant Engineer by

  
सहायक अभियन्ता  
Signature of P.W.D. Ballia  
26/05/25 बलिया

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया

पत्रांक—

1285/18

दिनांक— 29-06-15

सेवा में,

प्रबन्धक

एस०एस० पारामाउन्ट


मझौली, बलिया।

विषय — विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के  
अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ — आपका पत्र संख्या— शून्य दिनांक— 15.06.14

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता  
एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक— 20.06.15 को निरीक्षण किया गया।  
निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार है  
एवं भवन की स्थिति ठीक पाया गया।


संलग्न— जाँच प्रमाण—पत्र।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बलिया

जांच प्रमाण-पत्र

एस0एस0 पारामाउन्ट स्कूल, मझौली, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया।  
निरीक्षणोपरान्त भवन की निर्माकित मर्दे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.55M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.60 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	Leter No.	
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	RCC Flate Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	R.C.C. Column and Beam

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
 बलिया